

# Allegheny काउंटी डिस्काउंटेड फेयर्स पायलट प्रोग्राम में शामिल हों!

Allegheny काउंटी मानव सेवा विभाग (DHS) 18 से 64 वर्ष की उम्र के कम आय वाले लोगों में परिवहन सामर्थ्य के प्रभाव को समझने के लिए सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP) प्राप्तकर्ताओं की तलाश कर रहा है।

## Allegheny काउंटी डिस्काउंटेड फेयर्स पायलट प्रोग्राम के लिए कौन योग्य हैं?

योग्य प्रतिभागी:



वर्तमान में Allegheny काउंटी के निवासी हों



30 सितंबर, 2022 को SNAP लाभ प्राप्त कर रहे हों



18 से 64 वर्ष की उम्र के हों



18 से 64 वर्ष की उम्र वाला परिवार का कोई अन्य सदस्य पहले से ही इस पायलट में भाग न ले रहा हो

## पायलट किस तरह से काम करता है?

पायलट में भागीदारी स्वैच्छिक है लेकिन इसमें डेटा शेयर करने के लिए सहमत होना और समय समय पर होने वाले सर्वेक्षणों को पूरा करना शामिल है। योग्य प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से तीन ग्रुप में से कोई एक असाइन किया जाएगा:

1

**फ्री फेयर:** इस ग्रुप को 12 महीने के लिए सारे PRT ट्रिप पर अनलिमिटेड फ्री फेयर मिलेगा।

2

**50% छूट:** इस ग्रुप को एक ConnectCard प्राप्त होगा जो 12 महीने के लिए सारे PRT ट्रिप की लागत को आधा (50%) कम देगा, साथ ही यह \$10 के साथ प्री-लोडेड है।

3

**कोई छूट नहीं:** इस ग्रुप को \$10 का प्री-लोडेड ConnectCard मिलेगा लेकिन फेयर में छूट नहीं मिलेगी।

## यह पायलट क्यों है स्थाई प्रोग्राम क्यों नहीं?

पायलट एक स्थाई कार्यक्रम के डिजाइन को तैयार करने के लक्ष्य के साथ प्रतिभागियों से सीखने का एक अल्पकालिक अवसर होता है।

DHS यह समझना चाहता है कि सार्वजनिक परिवहन की लागत कम करने से स्थानीय निवासियों को कैसे लाभ हो सकता है। इसमें सवारियों पर प्रभाव और जॉब, सेवाओं और अन्य जरूरतों तक पहुंच में वृद्धि हुई है या नहीं, इसकी जांच करना है।



और अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए, विजिट करें:  
[DiscountedFares.alleghenycounty.us](https://DiscountedFares.alleghenycounty.us)



Allegheny County  
Discounted Fares  
Pilot Program

